


PROFORMAREGARDINGSAFEDRINKINGWATERANDSANITARYCONDITIONCERTIFICATE

No. 321

Date: 18/05/2023

It is certified that an inspection team headed by **Dr. Nagendra Prasad Sinha** from **Health Sanitary Department, Kutumba, Aurangabad, Bihar** inspected the **St. Joseph Public School, Sonbarsha, Amba, Aurangabad (Bihar)-824111**, (Run by **Murli Gi Education Trust, Amba Bazar, P.S + P.O- Amba, Aurangabad (Bihar)-824111**) on **17/05/2023** and found that **St. JOSEPH PUBLIC SCHOOL** has Safe drinking water facilities for the students and members of staff of the school and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building and campus as per the norms prescribed by the Central/State/U.T govt.

The above certificate is valid for a period of **two** years from **18/05/2023** to **17/05/2025**.

Signature with seal: 

Name : Dr N.P Sinha

Designation : प्रमुखी चिकित्सा पदाधिकारी

सकल स्वाथ केन्द्र कुटुम्बा

To

St. JOSEPH PUBLIC SCHOOL
Sonbarsha,
Amba, Aurangabad (Bihar)-
824111

Sujit Kumar Gupta

PRINCIPAL
St. Joseph Public School
Sonbarsha, Amba

Anup Kumar

Chairman
St. Joseph Public School
Sonbarsha, Amba
Aurangabad (Bihar)

Government of Bihar
Public Health Sub Division, Nabinagar
Sub Division Level Water Testing Laboratory
Water Quality Testing Report

Sample submitted in lab by- School Staff

District Name:- Aurangabad

Testing Date:- 18.05.2023

Sample receiving date- 16.05.2023

SL. No	Block	Location of Source	Type Of source	Parameters tested														
				pH	Turbidity	Conductivity	TDS	Total Hardness	Calcium	Magnesium	Chloride	Alkalinity	iron	Nitrate	Sulphate	Fluoride	Arsenic	Total Coliform
01	Kutumba	St. Joseph Public School Sonbarsha Amba	Source Point Direct Motor Water	-	1.57	713	-	288	72	25.92	43	302	0.2	-	35	0.67	-	-ve
Acceptable limit (IS 10500:2012)				6.5-8.5	1	-	500mg/l	20 mg/l	75 mg/l	30 mg/l	250 mg/l	200 mg/l	0.3 mg/l	45mg/l	200 mg/l	1.0 mg/l	0.01 mg/l	< 1.1
Maximum Permissible limit in absence of alternate source				NR	5 NTU	-	2000 mg/l	600 mg/l	200 mg/l	100mg/l	1000 mg/l	600 mg/l	1 mg/l	NR	400 mg/l	1.5 mg/l	NR	-

Sekandra Kumar
19/05/2023
Lab. Assist.

Srikant Kumar
19/05/2023
Chemist

HP
19/05/2023

Assistant Engineer
P.H. Sub Division Nabinagar